



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

of India

सं० 35] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 1975/माघ 4, 1896

No. 35] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 1975/MAGHA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है। जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 24th January 1975

NOTIFICATIONS

S.O. 59(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines. (Department of Mines) No. S.O. 1855 dated the 12th July, 1974, issued under sub-section (i) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire lands in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Uttar Pradesh is satisfied that the lands measuring 2800.00 acres (approximately) or 1133.10 hectares (approximately), described in the schedule appended hereto, should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 2800.00 acres (approximately) or 1133.10 hectares (approximately) described in the said schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Mirzapur (Uttar Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

Jogichowra Block

(Bina Project)

Singrauli Coalfield

(Uttar Pradesh)

DRG. No. Rev./50/74

Dated 3. 12. 74.

(showing lands acquired)

All rights.

Sl. No.	Village	Tahsil	Pargana	Pargana Number	Thana	District Area	Remarks
1.	Kakari (Kakri)	Danthi	Singrauli	77	Misra (Khairwa)	Mirzapur	Part
2.	Banshi	"	"	8	"	"	"
3.	Jamsila	"	"	43	"	"	"
4.	Mishra	"	"	101	"	"	"
5.	Gharsari (Dharsari)	"	"	—	"	"	"
6.	Kohroual (Koharoul)	"	"	84	"	"	"
7.	Bhairwa	"	"	—	"	"	"
8.	Chanduwar (Chanduwar)	"	"	30	"	"	"

Total area :—2800.00 acres (Approximately)
or 1133.10 hectares (Approximately)

Plot numbers acquired in village Kakari (Kakri):—

14 (part), 15 (part) and 349 (part).

Plot numbers acquired in village Banshi:—

7 to 23, 24 (part), 25 to 72, 73 (part), 101 to 219, 278, 279, 280, 281, 295 to 300, 305 to 325, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352, 354 to 424, 432 (part), 433 to 501 and 503.

Plot numbers acquired in village Jamsila:—

1 to 66, 68 (part), 73 (part), 74, 75, 76, 77 (part), 78 (part), 79 to 198, 210 to 238

Plot numbers acquired in village Mishra:—

1 to 18 and 19 (part).

Plot numbers acquired in village Gharsari (Dharsari):—

1 to 8, 9 (part), 10 (part), 11, 12 (part), 13 to 69, 70 (part), 71 (part), 7 (part), 84 (part), 85, 86, 87 (part) and 88 (part).

Plot numbers acquired in village Kohroual (Koharoul):—

1 (part).

Plot number acquired in village Bhairwa:—

21 (part).

Plot numbers acquired in village Chanduwar (Chanduwar):—

1 (part), 3 (part) and 7 (part).

Description of Boundaries

- A-B line passes through plot numbers 349, 15 and 14 of village Kakari (Kakri).
- B-C line passes along the part common boundary of Madhya Pradesh & Uttar Pradesh (i.e. along the Western boundary of village Banshi and part Western boundary of village Jamsila).
- C-D line passes through plot number 21 of village Bhairwa.
- D-E-F lines pass through plot number 21 of village Bhairwa, plot number 19 of village Mishra and plot number 1 of village Koharoul (Koharoul).
- F-G line passes along the part common boundary of village Koharoul (Koharoul) & Koharoulia.
- G-H line passes along the part common boundary of villages Gharsari (Dharsari) & Koharoulia.
- H-I line passes through plot numbers 71, 70, 73, 84, 87 & 88 of village Gharsari (Dharsari).
- I-J line passes through plot numbers 12, 10 & 9 of village Gharsari (Dharsari) and plot numbers 7, 3 & 1 of village Chanuwar (Chanduwar).
- J-K line passes along the part northern boundary of plot number 1 of village Chanuwar (Chanduwar).
- K-L line passes along the common boundary of villages Jamsila & Barwani.
- L-M line passes along the part eastern boundary of village Jamsila.
- M-N line passes along the common boundary of plot No. 209 & 210 along Southern & Western boundary of plot No. 199, along part Southern & Western boundary of plot No. 201, along Western boundary of plot No. 200, along part northern boundary of plot No. 184, through plot Nos. 78, 77 & 73, along part eastern and part northern boundary of plot No. 74 along eastern and part northern boundary of plot No. 66, through plot No. 68 of village Jamsila.
- N-O line passes along the part northern boundary of village Jamsila.
- O-P line passes along the part eastern boundary of village Banshi.
- P-Q line passes through plot No. 432, along part Southern & Eastern boundary of plot No. 422, along part Southern Eastern & Northern boundary of plot No. 424 of village Banshi.
- Q-R line passes along the part Eastern boundary of village Banshi.
- R-S line passes along the Eastern boundary of plot No. 300 of village Banshi.
- S-T line passes along the Northern boundary of Plot Nos. 300, 298, 297, 296 and 295 of village Banshi.
- T-U line passes along the part Western boundary of plot No. 295, along Northern boundary of plot Nos. 321, 323, 325, 333, 335, 338, 344, 348, 351, 352, along Western boundary of plot No. 353, along Northern boundary of plot No. 354, 356, and part Eastern boundary of plot No. 281 of village Banshi.
- U-V line passes along the Northern boundary of plot Nos. 281, 280, 278 and part Eastern Boundary of plot No. 219 of village Banshi.
- V-A line passes along the Northern boundary of plot numbers 219, 107, 101, 102, 103 and through plot Nos. 73 & 24 along Northern and part Western boundary of plot No. 7, along Northern boundary of plot numbers 12, 13 & 15 of village Banshi and meets at point 'A'.

[No. F. 2(3)/70-C5/CEL]

ऊर्जा मंत्रालय
(कोयला विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1975

का० आ० 50(अ).—यनः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के ईशान और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1855, तारीख 12 जून

1974 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से उभावद्ध अनुसूची में त्रिनिदिष्ट परिपत्र में भूमियों को अर्जित करने के अपने आणय की सूचना दी थी ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि 2800.00 एकड़ (लगभग) या 1133.10 हेक्टेयर (लगभग) वाली भूमियां जो इससे उभावद्ध अनुसूची में वर्णित हैं अर्जित की जानी चाहिए ;

अतएव, अब उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 2800.00 एकड़ (लगभग) या 1133.10 हेक्टेयर (लगभग) वाली भूमियां एतद्वारा अर्जित की जाती हैं ।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखाओं का निरीक्षण कलक्टर, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला निबंधक के कार्यालय, 1, कौन्सिल स्ट्रीट कलकत्ता में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) में किया जा सकेगा ।

अनुसूची

जोगांचावरा खण्ड

(बौना परियोजना)

मिर्जोली कोयला क्षेत्र

(उत्तर प्रदेश)

डी आर जी सं० रेब०/50/74

तारीख 3-12-74

सभी अधिकार

(जिसमें अर्जित भूमियां दर्शित हैं)

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना संख्या	परगना संख्या	थाना	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणियां
1.	काकाठी (काकरी)		दूधी	मिर्जोली	77	मिर्जापुर	मिर्जापुर (खैरवा)	भाग
2.	बंशी		"	"	8	"	"	"
3.	जमसिला		"	"	43	"	"	"
4.	मिर्जा		"	"	101	"	"	"
5.	धरगारी (धरमारी)		"	"	—	"	"	"
6.	बोहराश्रम (कोहरील)		"	"	84	"	"	"
7.	भैरवा		"	"	—	"	"	"
8.	चनुवार (चन्दुवार)		"	"	50	"	"	"

कुल क्षेत्र— 2800.00 एकड़ (लगभग)

या 1133.10 हेक्टेयर (लगभग)

काकारी (काकरी) ग्राम में अजित प्लॉट सं०

14 (भाग), 15 (भाग), और 349 (भाग)।

बंशी ग्राम में अजित प्लॉट सं०

7 से 23, 24 (भाग), 25 से 72, 73 (भाग), 101 से 219, 278, 279, 280, 281, 295 से 300, 305 से 325, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352, 354 से 424, 432 (भाग), 443 से 501 और 503।

जमसिला ग्राम में अजित प्लॉट सं०

1 से 66, 68 (भाग), 73 (भाग), 74, 75, 76, 77 (भाग), 78 (भाग), 79 से 198, 210 से 258।

मिस ग्राम में अजित प्लॉट संख्या :—

1 से 18 और 19 (भाग) ।

धरसारी (धरसारी) ग्राम में अजित प्लॉट संख्या :—

1 से 8, 9 (भाग), 10 (भाग), 11, 12 (भाग), 13 से 69, 70 (भाग), 71 (भाग), 73 (भाग), 84 (भाग), 85, 86, 87 (भाग) और 88 (भाग) ।

कोहरोअल (कोहरोल) ग्राम में अजित प्लॉट संख्या :—

1 (भाग) ।

भैरवा ग्राम में अजित प्लॉट संख्या :—

21 (भाग) ।

कुम्हार (कुम्हार) ग्राम में अजित प्लॉट संख्या :—

1 (भाग), 3 (भाग) और 7 (भाग) ।

सीमाओं का वर्णन

ए-बी काकारी (काकरी) ग्राम के प्लॉट सं० 349, 15 और 14 में से होकर लाइन जाती है ।

बी-सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की आंशिक सामान्य सीमा के साथ साथ (अर्थात् बंशी ग्राम की पश्चिमी सीमा और जमसिला ग्राम की आंशिक पश्चिमी सीमा के साथ साथ) लाइन जाती है ।

सी-डी भैरवा ग्राम के प्लॉट संख्या 21 से होकर लाइन जाती है ।

डी-आई-एफ-भैरवा ग्राम के प्लॉट संख्या 21, मिस ग्राम के प्लॉट सं० 19 और कोहरोअल (कोहरोल) ग्राम के प्लॉट सं० 1 में से होकर लाइनें जाती हैं ।

एफ-जी कोहरोअल (कोहरोल) और कोहरोलिया ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।

जी-एच	धरसारी (धरसारी) और कोहरीलिया ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ लाइन जाती है ।
एच-आई	धरसारी (धरसारी) ग्राम के प्लॉट सं० 71, 70, 73, 84, 87 और 88 में से होकर लाइन जाती है ।
आई-जे	धरसारी (धरसारी) ग्राम के प्लॉट सं० 12, 10, 9 तथा चनुवार (चन्दुवार) ग्राम के प्लॉट सं० 7, 3 और 1 में से होकर लाइन जाती है ।
जे-के	चनुवार (चन्दुवार) ग्राम के प्लॉट सं० 1 की आंशिक उत्तरी सीमा के साथ-साथ लाइन जाती है ।
के-एल	जमसिला और बरखानी ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।
एल-एम	जमसिला ग्राम की आंशिक पूर्वी सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।
एम-एन	जमसिला ग्राम के प्लॉट सं० 209 और 210 की सामान्य सीमा के साथ साथ प्लॉट सं० 199 की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा के साथ साथ, प्लॉट सं० 201 की आंशिक दक्षिणी और पश्चिमी सीमा के साथ-साथ प्लॉट सं० 200 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ प्लॉट सं० 184 की आंशिक उत्तरी सीमा के साथ-साथ प्लॉट सं० 78, 77 और 73 में से होकर प्लॉट सं० 74 की आंशिक पूर्वी और आंशिक उत्तरी सीमा के साथ साथ प्लॉट सं० 66 की पूर्वी और आंशिक उत्तरी सीमा के साथ-साथ प्लॉट सं० 68 में से होकर लाइन जाती है ।
एन-ओ	जमसिला ग्राम की आंशिक उत्तरी सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।
ओ-पी	बंशी ग्राम की आंशिक पूर्वी सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।
पी-क्यू	बंशी ग्राम के प्लॉट सं० 432 में से होकर, प्लॉट सं० 422 की आंशिक दक्षिणी और पूर्वी सीमा के साथ साथ, प्लॉट सं० 424 की आंशिक दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।
क्यू-प्रार	बंशी ग्राम की आंशिक पूर्वी सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।
प्रार-एस	बंशी ग्राम के प्लॉट सं० 300 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ लाइन जाती है ।
एस-टी	बंशी ग्राम के प्लॉट सं० 300, 298, 297, 296 और 295 की उत्तरी सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।
टी-क्यू	बंशी ग्राम के प्लॉट सं० 295 की आंशिक पश्चिमी सीमा के साथ साथ, प्लॉट सं० 321, 323, 325, 333, 335, 338, 344, 348, 351, 352 की उत्तरी सीमा के साथ साथ, प्लॉट सं० 353 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ, प्लॉट सं० 354, 356 की उत्तरी सीमा के साथ साथ, और प्लॉट सं० 281 की आंशिक पूर्वी सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।
क्यू-बी	बंशी ग्राम के प्लॉट सं० 281, 280, 278 की उत्तरी सीमा और प्लॉट सं० 219 की आंशिक पूर्वी सीमा के साथ साथ लाइन जाती है ।

बंशी ग्राम के प्लॉट सं० 219, 107, 101, 102, 103 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ और प्लॉट सं० 73 और 24 में से होकर, प्लॉट सं० 7 की उत्तरी और आंशिक पश्चिमी सीमा के साथ साथ, प्लॉट सं० 12, 13 और 15 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ लाइन जाती है और बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

[सं० फा० 2(3)/70 सी०-5/सी०ई० एल०]

S. O. 51(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3158-3159 dated the 19th August, 1971, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) published in the Gazette of India Extraordinary dated 24th August, 1971, Part II, section 3, sub-section (ii), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands described in the schedule appended to that notification;

AND WHEREAS the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

AND WHEREAS the Central Government, after considering the report aforesaid, and after consulting the Government of Bihar, is satisfied that out of the lands described in the schedule to the said notification the lands measuring 2557.00 acres (approximately) or 1034.77 hectares (approximately) described in the schedule appended hereto should be acquired;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 2557.00 acres (approximately) or 1034.77 hectares (approximately) described in the said schedule be acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the office of the Coal Controller, I, Council House Street, Calcutta or in the office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

THE SCHEDULE

Urimari Block (Balrampur)

(South Karanpura Coalfield)

ALL RIGHTS

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1	Ango	Barkagaon	97	Hazaribagh		Part
2	Aswa	,,	153	,,		Part
3	Potanga	,,	154	,,		Part
4	Urimari	,,	155	,,		Part

TOTAL AREA :—2557.00 acres (approximately)
or 1034.77 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Ango:—

1562(P), 1582(P), and 1670(P).

Plot numbers acquired in village Aswa:—

201(P), 202(P), 204(P), 205, 206, 207, 208(P), 345(P), 357(P), 358(P), 359(P), 363(P), 364, 365, 366, 367, 368(P), 369(P), 370 to 379, 380(P), 381 to 393, 394(P), 395, 396(P), 397(P), 595 (P), 627(P), 628 to 633, 633(P), 640 to 677, 678(P), 679 to 1064, 1068, 1069, 1073 and 1077(P).

Plot numbers acquired in village Potanga:—

432(P), 433 to 446, 447(P), 448 to 468, 469(P), 470, 471, 472, 473, 474, 475(P), 477(P), 486(P), 487, 488, 489, 490(P), 491(P), 493(P), 494(P), 541(P), 609(P), 610 to 991, 992(P), 993 to 1111, 1120(P), 1124(P), 1127(P), 1132(P), 1133(P), 1134 to 1139, 1140(P), 1149(P), 1150, 1151(P), 1152(P), 1153(P), 1177(P), 1229(P), 1230, 1231, 1232(P), 1715(P), 1716 to 1864, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1971, 1972, 1973, 1974(P), 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 and 1997.

Plot numbers acquired in village Urimari:—

134 to 147, 148(P), 158(P), 160(P), 162(P), 163(P), 164 to 180, 181(P), 182 to 193, 194(P), 195(P), 196(P), 272(P), 280(P), 281(P), 282, 283, 284, 285, 286, 287(P), 288(P), 289 to 312, 313(P), 314 to 438, 439(P), 521(P), 523 to 543, 544(P), 540(P), 551(P), 552(P), 553, 557(P), 558(P), 559, 560, 562(P), 563(P), 620(P), 643(P), 644(P), 645(P), 646(P), 647 to 731, 732(P), 755(P), 756, 757(P), 758 to 766, 775, 776, 779, 781, 788(P), 789(P), 790(P), 791(P), 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801 and 802(P).

Boundary Description:—

- A-B line passes through plot number 1670 (River) in village Ango.
- B-C line passes along the Central line of River Damodar (i.e. along the part Southern boundary of village Ango, Southern boundary of villages Aswa, Potanga and part Southern boundary of village Urimari.
- C-D-E lines pass through plot numbers 757, 755, 732, 646, 643, 645, 644, 562, 563, 558, 557, 552, 551, 546, 544, 620, 272, 288, 287, 280, 281, 195, 196, 194, 181, 158, 160, 163, 162, 148, along the Northern boundary of plot numbers 146, 134 through plot number 313, (Road), along Northern boundary of plot number 438 through plot numbers 439, 521, 802, 791, 789, 790 and 788 of village Urimari.
- E-F-G lines pass through plot number 788 of village Urimari, along Southern boundary of plot number 431, through plot numbers 432, 469, 432, 477, 475, 486, 494, 493, 491, 490, 447, 541, 609, 1177, 992, 1153, 1152, 1133, 1151, 1149, 1140, 1133, 1120, 1132, 1120, 1127, 1124, 1120 and 1715 of village Potanga.
- G-A line passes through plot numbers 1715, 1229, 1232, 1715 and 1974 of village Potanga, through plot numbers 1077, 627, 595(Road), 639, 678, 397, 678, 396, 678, 394, 678, 201, 202, 208 along Southern boundary of plot numbers 211, 210, and 209 through plot numbers 208, 380, 363, 368, 369, 359, 358, 357, 380 and 345 of village Aswa, through plot numbers 1562 and 1582 of village Ango and meets at starting point 'A'.

[No. F. C3-2 (3)/71-C5/CEL]

S. B. LAL, Jt. Secy.

का० ग्रा० 51 (अ).—उक्त कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० ग्रा० 3158-3159, तारीख 19 अगस्त, 1971 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 24 अगस्त, 1971 के भाग 2, खण्ड 3. उपखण्ड (ii) में प्रकाशित हुई थी, केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमियों को अर्जित करने के अपने आणव की सूचना दी थी ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में

वर्णित भूमियों में से 2557.00 एकड़ (लगभग) या 1034.77 हेक्टेयर (लगभग) वाली भूमियां, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित हैं, अर्जित की जानी चाहिए ;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 2557.00 एकड़ (लगभग) या 1034.77 हेक्टेयर (लगभग) वाली भूमियां एतद्वारा अर्जित की जाती हैं ।

2. इन अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांकों का निरीक्षण उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला-निर्गमन के कार्यालय, 1, कौन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय दरमंगा हाऊस, राँची (बिहार) में किया जा सकेगा ।

अनुसूची

उरीमारी खण्ड (बलरामपुर)

(दक्षिण करनपुरा कोयला क्षेत्र)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	खण्ड	टिप्पणियां
1	आंगो	बर्कागांव	97	हजारीबाग		भाग
2	अस्वा	"	153	"		भाग
3	पोतंगा	"	154	"		भाग
4	उरीमारी	"	155	"		भाग
कुल क्षेत्र:—2557.00 एकड़ (लगभग)						
या 1034.77 हेक्टेयर (लगभग)						

आंगो ग्राम में अर्जित प्लॉट सं० :—

1562 (री), 1582 (री) और 1670 (पी) ।

अस्वा ग्राम में अर्जित प्लॉट सं० :—

201 (री), 202 (री), 204, 205, 206, 207, 208 (री), 345 (पी), 357 (पी), 358 (री), 359 (री), 363 (री), 364, 365, 366, 367, 368 (पी), 369 (पी), 370 से 379, 380 (री), 381 से 393, 394 (री), 395, 396 (पी), 397 (पी), 595 (पी), 627 (री), 628 से 638, 639 (री), 640 से 677, 678 (पी), 679 से 1064, 1068, 1069, 1073 और 1077 (पी) ।

पोतंगा में अजित प्लाट सं० :—

432 (पी), 433 से 446, 447 (पी), 448 से 468, 469 (पी), 470, 471, 472, 473, 474, 475 (पी), 477 (पी), 486(पी), 487, 488, 489, 490(पी), 491 (पी), 493 (पी), 494 (पी), 541 (पी), 609(पी), 610 से 991, 992(पी), 993 से 1119, 1120 (पी), 1124(पी), 1127 (पी), 1132(पी), 1133 (पी), 1134 से 1139, 1140 (पी), 1149(पी), 1150, 1151(पी), 1152(पी), 1153(पी), 1177(पी), 1229 (पी), 1230, 1231, 1232(पी), 1715 (पी), 1716 से 1864, 1869, 1870 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1971, 1972, 1973, 1974 (पी), 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997 ।

उरीमारी ग्राम में अजित प्लाट सं० :—

134 से 147, 148 (पी), 158 (पी), 160(पी), 162(पी), 163 (पी), 164 से 180, 181(पी), 182 से 193, 194(पी), 195(पी), 196(पी), 272(पी), 280 (पी) 281 (पी), 282, 283, 284, 285, 286, 287(पी), 288 (पी), 289 से 312, 313(पी), 314 से 438, 439 (पी), 521(पी), 523 से 543, 544(पी), 546 (पी), 551(पी), 552(पी), 553, 557(पी), 558(पी), 559, 560, 562 (पी), 563 (पी), 620(पी), 643(पी), 644 (पी), 645(पी), 646 (पी), 647 से 731, 732 (पी), 755(पी), 756, 757(पी), 758 से 766, 775, 776, 779, 781, 788(पी), 789(पी), 790(पी), 791(पी), 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801 और 802 (पी) ।

सीमा वर्णन

- ए-बी आंगों ग्राम में प्लाट सं० 1670 (नदी) से होकर लाइन जाती है ।
- बी-सी दामोदर नदी की मध्य लाइन के साथ साथ (अर्थात् आंगों ग्राम की आंशिक दक्षिणी सीमा, अस्वा और पोतंगा ग्राम की दक्षिणी सीमा और उरीमारी ग्राम की आंशिक दक्षिणी सीमा के साथ साथ) लाइन जाती है ।
- सी-डी-ई प्लाट सं० 757, 755, 732, 646, 643, 645, 644, 562, 563, 558 557, 552, 551, 546, 544, 620, 272, 288, 287, 280, 281, 195, 196, 194, 181, 158, 160, 163, 162, 148 से हो कर, प्लाट सं० 146, 134 की उत्तरी सीमा के साथ साथ प्लाट सं० 313 (सड़क) से होकर, प्लाट सं० 438 की उत्तरी सीमा के साथ साथ, उरीमारी ग्राम के प्लाट सं० 439, 521, 802, 791, 789, 790 और 788 से हो कर लाइनें जाती हैं ।
- ई-एफ-जी उरीमारी ग्राम के प्लाट सं० 788 से होकर, पोतंगा ग्राम के प्लाट सं० 431 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ, और प्लाट सं० 432, 469, 432, 477, 475, 486, 494, 493, 491, 490, 447, 541, 609, 1177, 992, 1153, 1152, 1133, 1151, 1149, 1140, 1133, 1120, 1132, 1120, 1127, 1124, 1120 और 1715 से होकर लाइनें जाती हैं ।

जी-ए पोतगा ग्राम के प्लॉट सं० 1715, 1229, 1232, 1715 और 1974 से होकर, अस्वा ग्राम के प्लॉट सं० 1077, 627, 595 (सड़क), 639, 678, 397, 678, 396, 678, 394, 678, 201, 202, 208 से होकर प्लॉट सं० 211, 210 और 209 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ प्लॉट सं० 208, 380, 363, 368, 369, 359, 358, 357, 380 और 345 से होकर, आंगो ग्राम के प्लॉट सं० 1562 और 1582 से होकर लाइन जाती है और आरम्भ बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

[सं० फा० सी० 3-2(3)/71-सी०-5/सी० ई० एल०]

शरण विहारी लाल, संयुक्त सचिव ।

